

दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को अपराह्न 03:00 बजे से मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (F.S.S.A.I.), कानपुर नगर निगम एंड कानपुर होटल रैस्टोरेंट एसोसिएशन (के.एच.आर.ए.) के संयुक्त तत्वाधान में **“स्वच्छता व शुद्धता में हमारा योगदान”** पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।

आयोजित सत्र के मुख्य-अतिथि **श्री अविनाश सिंह, नगर आयुक्त**, कानपुर, थे तथा गोष्ठी की अध्यक्षता मर्चेट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री बी.के. लाहोटी जी द्वारा की गयी।

श्री बी.के. लाहोटी, अध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, ने मंचासीन मुख्य-अतिथि श्री अविनाश सिंह, नगर आयुक्त, कानपुर, **श्री एस.एस. एच. आबिदी**, अभिहित अधिकारी, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन-यू.पी., **श्री मोहन रामचंदानी**, अध्यक्ष, कानपुर होटल होटल रैस्टोरेंट एसोसिएशन, सभा में उपस्थित गणमान्यों तथा मीडियाकर्मियों का स्वागत करते हुए कहा की स्वच्छता व शुद्धता एक दूसरे के पर्याय है, यदि शुद्धता है तो स्वच्छता का वातावरण अल्प समय में विकसित हो जाएगा। श्री लाहोटी ने कहा आज की गोष्ठी में हम लोग कानपुर को प्रदूषण-मुक्त शहर बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा की श्री अविनाश सिंह न केवल इस शहर से भली-भाँती परिचित हैं बल्कि शहरवासियों को भी पूर्णतयः जानते हैं। उन्होंने कहा कि श्री सिंह एक द्रग-इच्छा शक्ति के अधिकारी हैं इन्होंने शहर को गन्दगी से मुक्त कराने के लिए नगर निगम विभाग को सक्रिय किया है। श्री लाहोटी ने कहा कि कानपुर में उपस्थित अन्य सरकारी विभागों जैसे, ट्राफिक पुलिस, जन संस्थान, नगर निगम, केस्को, का आपस में समनव्य होना अतिआवश्यक है, इससे शहर की साफ-सफाई में आसानी होगी। श्री लाहोटी ने मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से श्री अविनाश सिंह, नगर आयुक्त, कानपुर, को “स्वच्छ कानपुर” विषय पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जिसमें कानपुर नगर को स्वच्छ बनाने से सम्बंधित सलाह का उल्लेख है।

नगर निगम ओर से उपस्थित **श्री आर. के. सिंह** ने ‘स्वच्छता’ App का पॉवर-पॉइंट तथा विडियो का प्रस्तुतीकरण दिया। श्री सिंह ने उपस्थित गणमान्यों को विस्तारपूर्वक स्मार्ट फोन में App की downloading प्रक्रिया तथा उपयोग में लाने का तरीका समझाया।

डॉ. पंकज श्रीवास्तव, प्राभारी अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन, नगर निगम, कानपुर, ने सूचित किया कि दिनांक 04 जनवरी, 2017 स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारम्भ हो रहा है जिसमें किसी भी शहर को कुछ निश्चित मापदण्डों जैसे अपव्यय का प्रतिशत, अपव्यय का पुनः उपयोग, अपव्यय का उपयोग कम्पोस्ट बनाने में, स्वच्छता App download करने तथा अन्य मुद्दों पर चुना जाएगा। श्री श्रीवास्तव ने सूचित किया कि स्वच्छता App अब तक 26,749 बार download हो चुका है, इस आकड़े को उन्होंने 60,000/- तक पहचान के लिए आग्रह किया। उन्होंने सूचित किया कि स्वच्छता की कड़ी में Google से टाई-अप किया गया है जिसके अंतर्गत गूगल Toilet Locator App पर ध्यान केंद्रित किया है। BSNL से टाई-अप किया गया है सभी टॉयलेट्स में साफ-सफाई से सम्बंधित नेट कनेक्टिविटी दे जिससे टॉयलेट्स की देख-रेख में मदद मिल सके डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि साफ-सफाई के इन समस्त कार्यों में जनसहभागिता होना अत्यंत आवश्यक है। डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम विभाग ने शहर में उपस्थित सभी माल्स तथा पेट्रोल पम्पस को सूचित कर दिया गया है कि उनके वहाँ उपस्थित प्रसाधन को जनसाधारण के लिए उपलब्ध करवा दिया जाये।

मर्चेट्स चैम्बर के पूर्व-अध्यक्ष **डॉ. आई.एम. रोहतगी**, ने कहा कि अपने नगर की सफाई के लिए हम सबके पास द्रग-इच्छा शक्ति है बस जनसाधारण तथा विभाग के आपसी सहयोग की ज़रूरत है। गोष्ठी में उपस्थित गणमान्यों ने स्वच्छ कानपुर से सम्बंधित सुझाव माननीय नगर आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जिसमें जानेश मिश्रा,

कानपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के श्याम शुक्ला ने नगरवासियों में जागरूकता बढ़ाने तथा जनता द्वारा दिए जाने वाले कर का प्रभावी तरह से उपयोग करने, कानपुर परिवर्तन फोरम के श्री सुनील गोवर, तथा कानपुर की अन्य व्यापारिक संस्थाओं ने अपने विचार प्रस्तुत किये।

श्री अविनाश सिंघ ने गोष्ठी में बताये गए स्वच्छ कानपुर से सम्बंधित सुझावों को नोट किया था तथा आश्वासन भी दिया कि उपस्थित नगरवासियों के प्रभावी सुझावों का शीघ्रता से अमल में लाने का प्रयास किया जायेगा। श्री सिंह ने सूचित किया कि शहर में डिपार्टमेंटल स्टोर, मिल्क ATMs खोलेंगे तथा इस बार की बरसात से शहर की नालियाँ जाम नहीं होने देंगे।

कार्यक्रम का संचालन **श्री विजय पाण्डे**, चेयरमैन, प्रोसेस्ड फूड एंड एग्रीकल्चर कमिटी, मर्चेट्स चैम्बर ने किया तथा श्री पाण्डे ने कहा कि बरसात में पानी की उचित निकासी न होने के कारण शहर की नालियाँ जाम होने लगती हैं और गंदा पानी सड़क पर बहने लगता है। धन्यवाद-प्रस्ताव **श्री बी.एम.गर्ग**, उपाध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किया।

सत्र में उपस्थित गणमान्य:

उक्त सत्र में श्री अतुल कनोडिया, श्री नवीन खन्ना, श्री गुलशन धूपर, डॉ. अवध दुबे, निखिल गुप्ता, सत्यासर, मर्चेट्स चैम्बर के सदस्यगण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (F.S.S.A.I.), कानपुर नगर निगम के अधिकारीगण तथा कानपुर के अन्य प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

सधन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश